

ICRA Limited

July 30, 2021

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers

Dalal Street

Mumbai 400 001, India

Scrip Code: 532835

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza,

Plot no. C/1, G Block

Bandra-Kurla Complex

Bandra (East)

Mumbai - 400 051, India

Symbol: ICRA

Dear Sir/Madam,

Sub.:- Advertisement copies

Please find enclosed copies of the extracts of unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) of ICRA Limited (the "Company") for the first quarter ended June 30, 2021 published in the following newspapers on July 30, 2021, pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015:

- 1. Financial Express
- 2. Jansatta

You are requested to take the above on record.

Regards,

Sincerely,

(S. Shakeb Rahman)
Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: As above

Building No. 8, 2nd Floor, Tower A DLF Cyber City, Phase II Gurugram - 122002, Haryana Tel.: +91.124.4545300

CIN: L74999DL1991PLC042749

Website: www.icra.in
Email: info@icraindia.com

Helpdesk: +91.9354738909

Registered Office: B - 710, Statesman House, 148, Barakhamba Road, New Delhi - 110001. Tel.: +91.11.23357940-45

FINANCIAL EXPRESS

Recall of E-auction Sale Notice The E-auction Sale Notice published

on 21-07-2021 & 22-07-2021 by

Bank of Baroda, Stressed Assets

Management Branch, Kolkata for the

E-auction dated 06-08-2021 for the

Land in connection with the Account of

M/s. Blue Fern Ventures Pvt. Ltd.-in

Liquidation (Borrower) is hereby

SWADESHI INDUSTRIES AND LEASING LIMITED

REGD OFF: Munisuvrat Complex, Phase III, Building, A 1, 1st floor, Near Anjur Phata, Bhiwandi Thane - 421302 Email:Compliance@swadeshiglobal.com Website: www.swadeshiglobal.com. NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of Company will be held on Thursday 12" August 2021, inter alia to consider and approve the Un audited Financial Results for the first guarter ended 30" June 2021. Further as per the "Code of Conduct" formed under the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015; the trading window will be closed from 1" July, 2021 till forty eight hours after the date of declaration of results for Directors, KMP Officers and Designated Employees, and their immediate relatives.

This information is also available on Company's website at www.Swadeshiglobal.com and also on Stock Exchanges Website at www.bseindia.com For Swadeshi Industries and

Leasing Limited

Sd/

Gauray Jain Managing Director (DIN: 06794973) Date: 29" July , 2021 Place: Mumbai

Tyche Industries Limited egistered Office: C-21/A, Road No.9. Film Nagar, Jubilee Hills, Hyderabad 500 096 Ph. No. 040-23541688, Email: cs@tycheindustries.net

NOTICE

NOTICE is hereby given pursuant to regulation 47 read with Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, 061 August, 2021 at 3.30 P.M at Registered office i.e., C 21/A, Road No. 9, Film Nagar, Jubilee Hills, Hyderabad 500 096, inter alia, to consider and approve the Un-Audited financial results for the first guarter ended 30th June, 2021.

Further, in terms of the Company's Code of Conduct for Prevention of Insider Trading and Fair disclosure of Unpublished Price Sensitive Information and SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 the Trading Window for dealing securities of the Company has been closed from 1st July, 2021 and it will open after 48 hours from the meeting of Board of Directors as scheduled above. The said notice may be accessed

on the Company's website at www.tycheindustries.net and in the website of Stock Exchanges at www.bseindia.com ForTYCHE INDUSTRIES LIMITED

G GANESH KUMAR

MANAGING DIRECTOR DIN: 01009765 Place: Hyderabad Date: 28.07.2021

ICRA

ICRA Limited

Corporate Identity Number (CIN): L74999DL1991PLC042749 Registered Office: B-710, Statesman House, 148, Barakhamba Road, New Delhi-110001 Telephone No.:+91-11-23357940-45; Website: www.icra.in; Email ID: investors@icraindia.com

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2021

(₹ in lakh)

S. No.	Particulars	Quarter ended June 30, 2021 (Unaudited)	Year ended March 31, 2021 (Audited)	Quarter ended June 30, 2020 (Unaudited)
1	Total income from operations	4,606.34	18,126.72	4,249.79
2	Net profit / (loss) for the period (before tax, exceptional and / or extraordinary items)	3,078.08	7,166.29	1,364.44
3	Net profit / (loss) for the period before tax (after exceptional and / or extraordinary items)	3,078.08	7,166.29	1,364.44
4	Net profit / (loss) for the period after tax (after exceptional and / or extraordinary items)	2,600.72	5,294.54	998.27
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit / (loss) for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax)]	2,633.51	5,320.00	1,041.37
6	Equity share capital	965.12	965.12	965.12
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		60,492.89	
8	Earnings per share (of ₹ 10/- each)		(0)	
	Basic :	27.04	55.04	10.38
	Diluted:	27.04	55.04	10.38

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2021

S. No.	Particulars	Quarter ended June 30, 2021 (Unaudited)	Year ended March 31, 2021 (Audited)	Quarter ended June 30, 2020 (Unaudited)
1	Total income from operations	7,986.58	30,106.08	6,961.89
2	Net profit / (loss) for the period (before tax, exceptional and / or extraordinary items)	3,314.27	11,200.51	2,329.36
3	Net profit / (loss) for the period before tax (after exceptional and / or extraordinary items)	3,314.27	11,200.51	2,329.36
4	Net profit / (loss) for the period after tax (after exceptional and / or extraordinary items)	2,433.75	8,268.34	1,704.89
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit / (loss) for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax)]	2,418.22	8,270.06	1,737.71
6	Equity share capital	965,12	965.12	965.12
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		74,807.59	
8	Earnings per share (of ₹ 10/- each)			
	Basic :	24.90	84.89	17.48
	Diluted :	24.90	84.89	17.48

 During the guarter ended June 30, 2021, the Company was dealing with following matters which arose in previous periods:

(a) The Securities and Exchange Board of India (SEBI) enhanced the penalty amount from ₹ 25 lakhs to ₹ 1 crore in respect of an adjudication proceeding initiated by it in relation to the credit ratings assigned to one of the Company's customer and the customer's subsidiaries. The Company deposited the enhanced penalty amount under protest and filed an appeal with the Securities Appellate Tribunal contesting the said order. The said appeal is under review. On this matter, the Company also co-operated with other government agencies in relation to queries received from them.

(b) The Board of Directors ("Board") had previously appointed external experts to examine and report on anonymous representations making certain allegations against two former officials which were forwarded to the Company by SEBI ("Representations"). The key findings arising from the said examination along with the remedial measures were submitted to SEBI in July 2020. The Company has implemented the remedial measures, including termination of services of aforesaid officials.

Basis the foregoing and the legal counsel opinion obtained, the Company does not foresee any significant adverse implications on the Company.

2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Statutory Auditors of the Company have carried out limited review of the Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter June 30, 2021. The full format of the Quarterly Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results and Limited Review Report thereon are available on the Stock Exchange websites of National Stock Exchange and BSE at www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively and under the Investors section on the Company's website www.icra.in. By Order of the Board of Directors

N. Sivaraman Managing Director & Group CEO Place: Mumbai Date : July 28, 2021 (DIN: 00001747)

BSE LIMITED

CIN: L67120MH2005PLC155188 Regd. Office: 25"Floor, P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001. Tel: 022 2272 1233/34



Website: www.bseindia.com Email: bse.shareholders@bseindia.com

NOTICE OF THE SIXTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

("NOTICE")

NOTICE is hereby given that the Sixteenth Annual General Meeting ("AGM") of the Shareholders of BSE Limited ("the Company") will be held on Tuesday, August 24, 2021 at 3.00 P.M (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") without presence of physical quorum to transact the business as set out in the Notice of the

Notice of the AGM along with the Annual Report 2020-21 has been sent only through electronic mode on Thursday, July 29, 2021, to all Shareholders of the Company whose email addresses were registered with the Company's Registrar and Transfer Agents, KFin Technologies Private Limited ("RTA")/ Depository Participant(s). The Annual Report containing the Notice is available on the Company's website at https://www.bseindia.com/investor_relations/annualreport.html, website of Stock Exchange at www.nseindia.com and on the website of Central Depository Services (India) Limited "CDSL") at www.evotingindia.com.

The Company has provided to its Shareholders, the facility to cast their vote electronically, during the following period, through the e-Voting services provided by CDSL.

Commencement of remote e-Voting:	Saturday, August 21, 2021 from 9.00 A.M. (IST)
Conclusion of remote e-Voting:	Monday, August 23, 2021 at 5.00 P.M. (IST)

said date and time. In addition to the above, the facility for e-Voting shall also be made available at the AGM for the Shareholders who have not already cast their vote prior to the AGM by remote e-Voting. Shareholders holding shares either in physical mode or in Demat mode, as on Tuesday, August 17, 2021, (the cut-off

The remote e-voting shall be disabled by CDSL for voting thereafter and Shareholders will not be allowed to vote beyond

date) shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting during the AGM. Shareholders who have casted their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote at AGM. Shareholders, as on cut-off date, will be able to attend the AGM through VC using the electronic platform provided by

CDSL. The detailed instructions for e-Voting and participating through VC are provided in the Notice of the AGM. Any person who becomes Shareholder of the Company after sending the Notice of the AGM and holding shares as of the cut-off date may download the Notice of the AGM and follow the procedure for remote e-Voting/attending the AGM

through VC/e-Voting at the AGM as mentioned in the Notice of the AGM.

Place: Mumbai

Date: July 29, 2021

Date: 28.07.2021

Place: Bengaluru

In case of any query and/or grievance, in respect of voting by electronic means, Shareholders may refer to the Frequently Asked Questions ('FAQs') under the help section of CDSL website at www.evotingindia.com or contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43 for any further clarifications.

The Company has fixed Friday, August 6, 2021 as the 'Record Date' for purpose of payment of final dividend, if declared at the AGM, on equity shares of the Company.

> By Order of the Board of Directors For BSE Limited Sd/-Prajakta Powle Company Secretary& Compliance Officer

Date: 29th July , 2021

Place: Mumbai

their immediate relatives.

JCK INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LIMITED

CIN:L70102KA1979PLC003590

Regd Office: 309, First Floor, West Minster Building, 13 Cunningham Road, Bengaluru - 560 052 Extract of the Statement of Standalone Un-audited Financial Results for the guarter Ended 30th June 2021

(₹ in Lakhs Except EPS & Share Capital and Unless otherwise stated)

SI. No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2021	Quarter ended 30.06.2020	Quarter ended 31.03.2021	Year ended 31.03.2021
		Unaudited	Unaudited	Audited	Audited
1	Total Income	125.56	149.22	271.74	732.86
2	Net Profit Before Tax	8.59	23.72	15.08	75.24
3	Net Profit After Tax	6.08	19.60	7.47	57.54
4	Total Comprehensive Income (OCI)			(4)	*
5	Equity Share Capital (FV of ₹10 Each)	41666670	41666670	41666670	41666670
6	EPS from Continuing Operations				
	- Basic	0.01	0.47	0.18	0.47
	- Diluted	0.01	0.47	0.18	0.47

The above is an extract to the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The Full format of the said Financial Results are available in the website of the Company www.jckgroup.in and also in Metropolitan Stock Exchange of India Limited www.msei.in respectively.

> For and on behalf of the Board of Directors Jyoti Kapur

Whole Time Director

happiest minds

The Mindful IT Company Born Digital . Born Agile

HAPPIEST MINDS TECHNOLOGIES LIMITED

(formerly known as Happiest Minds Technologies Pvt Ltd)

CIN: L72900KA2011PLC057931 Regd. Office: #53/1-4, Hosur Main Road, Madivala (next to Madivala Police Station) Bangalore-560 068, Karnataka, India

Website: www.happiestminds.com, Email: IR@happiestminds.com, Tel: +91 80 6196 0300 Extract of Consolidated Financial Results for the Quarter Ended June 30, 2021

(₹ in lakhs) Quarter ended Quarter ended Quarter ended June 30, 2021 March 31, 2021 June 30, 2020 **Particulars** (Unaudited) (Refer note 2) (Audited) Total Income from Operations 22,374 Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) 4,084 5,728 Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 5,119 4,924 4,084 Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 3,573 3,605 5.018 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 3,407 3,648 5,451 Paid-up equity share capital (₹ 2/- each) 2,837 2,842 2,044 Other equity 55,283 51,762 29,857 Earnings Per Share (of ₹ 2/- each)

Diluted (Not annualised)

	Quarter ended	Quarter ended	Quarter ended	
Particulars	June 30, 2021	March 31, 2021	June 30, 2020	
	(Unaudited)	(Refer note 2)	(Unaudited)	
(a) Total Income from Operations	23,968	21,127	18,619	
(b) Profit Before tax	5,018	5,064	3,944	
(c) Profit After tax	3,501	3.692	4,878	

2.51

2.45

2.55

3.73

3.72

Basic (Not annualised)

1. In terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, this Statement of Unaudited Consolidated Financial Results for the guarter ended June 30, 2021 ("Unaudited Consolidated Financial Results") of Happiest Minds Technologies Limited (the "Holding Company" or the "Company") and its subsidiary (the Holding Company and its subsidiary together referred to as "the Group") has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on July 28, 2021 and have been subject to a limited review by the Statutory Auditors of the Company.

2. The financial results of the Company for quarter ended March 31, 2021 are the balancing figures between audited figures in respect of full financial year upto March 31, 2021 and the unaudited published year-to-date results upto the third quarter ended December 31, 2020 and in respect of comparitive financial results for quarter ended June 30, 2020 which were subject to limited review/audit by M/s S.R.Batliboi & Associates LLP, Chartered Accountants, the predecessor auditor who have expressed an unmodified review conclusion / audit opinion respectively.

3. The Board of Directors of the Company at their meeting held on May 12, 2021 had for the year ended March 31, 2021, recommended the payout of a final dividend of ₹ 3/- per equity share of face value ₹ 2/- each. This recommendation was approved by the Shareholders of the Company at their meeting on July 7, 2021 and subsequently paid on July 12, 2021.

4. The Company had acquired 100% voting interest in Happiest Minds Inc. (erstwhile PGS Inc.) vide definitive agreements signed on January 27, 2021, for a total recorded consideration of US \$ 13.31 million (INR 9,720 lakhs), comprising cash consideration of US \$ 8.25 million (INR 6.025 lakhs) and fair-valued contingent consideration in the form of warrants of US \$ 5.06 million (INR 3,696 lakhs) payable over the next 3 years. The contingent consideration was classified as a financial liability within the scope of Ind AS 109 'Financial Instruments' and was measured at fair value. Ind AS 109 mandates that any subsequent changes in such fair value will have to be recognized in the statement of profit and loss. The Company carried out a fair valuation during the quarter ended June 30, 2021 and there was increase in the liability basis increasing expectation of payout. The said increase amounting to ₹ 609 lakhs has been recognised in the statement of profit and loss and disclosed as 'Exceptional Item'.

The above is an extract of detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Discloure Requirements) regulations, 2015. The full format of the quarterly results are available on the websites of the Stock exchanges where shares of the Company are listed i.e., www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the website of the Company i.e., www.happiestminds.com.

For Happiest Minds Technologies Limited

Place: Bengaluru, India Date: July 28, 2021

Managing Director & Chief Financial Officer

K G DENIM LIMITED CIN: L17115TZ1992PLC003798

Regd.Office: Then Thirumalai, Coimbatore - 641 302. Phone: 04254-235401, Fax: 04254-235400 Website: www.kgdenim.com, E-mail: cskgdl@kgdenim.in Extract of Statement of Standalone & Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended on 31st March 2021 (Rs. in Lakhs)

П	5200 AS 600		STANDALONE			V2000	CONSOLIDATED				
S.	Particulars	Quarter ended Year ended		ended	Quarter ended			Year ended			
No		31.03.2021 (Audited)	31.12.2020 (Unaudited)	31.03.2020 (Audited)	31.03.2021 (Audited)	31.03.2020 (Audited)	31.03.2021 (Audited)	31.12.2020 (Unaudited)	31.03.2020 (Audited)	31.03.2021 (Audited)	31.03.2020 (Audited)
2	Total Income from Operations Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional items) Net Profit/(Loss) for the period before Tax	14,367 (862)	13,056 737	11,054 (698)	41,562 (1,043)	49,556 (1,901)	15,147 (771)	13,890 661	11,808 (1,004)	43,818 (1,180)	51,228 (2,519
4	(after Exceptional items) Net Profit/(Loss) for the period after Tax	(862)	737	(1,148)	(1,043)	(2,351)	(771)	661	(1,004)	(1,180)	(2,519
5	(after Exceptional items) Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive	(468)	510	(877)	(588)	(1,651)	(371)	495	(644)	(659)	(1,641
6	Income (after tax)] Equity Share Capital (Face Value Rs.10/- Per Share) Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the	(342) 2565	511 2565	(751) 2565	(462) 2565	(1,527) 2565	(230) 2565	495 2565	(513) 2565	(519) 2565	(1,512 256
- 1	Audited Balance Sheet of the previous year Earning Per Share (for total comprehensive income) (of Rs.10/- Each)				6649	7111				5074	5594
	1. Basic & Diluted	(1.82)	1.99	(3.42)	(2.29)	(6.44)	(1.45)	1.93	(2.51)	(2.57)	(6.40

1. The above is an extract of the detailed format of Quarter and Year Ended Audited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Audited Financial Results and this extract were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in its meeting held on 29th July 2021. The full

Coimbatore 29th July 2021

By order of the Board KG BAALAKRISHNAN Executive Chairman

Rs. in lakhs



financialexp.epap.in

VEEJAY LAKSHMI ENGINEERING WORKS LIMITED Regd. Office: Sengalipalayam, NGGO Colony P.O., Coimbatore 641022

Email Id:compsec@veejaylakshmi.com Website: www.veejaylakshmi.com CIN:L29191TZ1974PLC000705

format of the Audited Financials Results is available on the website of the Stock Exchange BSE:http://www.bseindia.com, and Company's website:http://www.kgdenim.com.

STATEMENT OF AUDITED RESULTS FOR THE QUARTER/ YEAR ENDED 31/03/2021

10		STAND ALONE				CONSOLIDATED					
SL. NO	PARTICULARS	Quarter ended		Year ended Year ended		d Quarter ended			Year ended	Year ended	
NO		31/03/2021	30/12/2020	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020	31/03/2021	30/12/2020	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2020
İ	T	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1 Total I	Income from Operations	2296.06	1429.81	1529.35	5131.73	6877.42	2296.06	1429.81	1529.35	5131.73	6877.42
	Proft/(Loss) before tax re exceptional and/or extra ordinary items)	1.73	30.10	-755.13	-298.31	-920.27	1.73	30.10	-755.13	-298.31	-920.27
	Proft/(Loss) before tax exceptional and/or extra ordinary items)	1.73	30.10	-755.13	-298.31	-920.27	1.73	30.10	-755.13	-298.31	-920.27
	roft/(Loss) for the period after tax (after otional and or extra ordinary items)	-5.20	35.49	-1219.58	-294.90	-1339.93	-5.20	35.49	-1219.58	-294.90	-1339.93
[comp	Comprehensive income for the period prising Proft/(Loss) for the period (after tax) other Comprehensive income (after tax)	20.51	49.46	-1233.89	-242.37	-1385.97	22.85	50.71	-1227.74	-243.16	-1397.03
	y Share Capital value of Rs.10/- per share)	507.19	507.19	507.19	507.19	507.19	507.19	507.19	507.19	507.19	507.19
	rves (excluding revaluation reserves as n in the Audited Balance sheet of previous	0.00	0.00	0.00	3541.03	3781.89	0.00	0.00	0.00	3683.62	3925.27
8 Earnin items) Basic	ngs per share (before extra ordinary) (of Rs.10/-) each (Not annualised) :	-0.10	0.70	-24.05	-5.81	-26.42	-0.10	0.70	-24.05	-5.81	-26.42
Dilute	ed:	-0.04	0.25	-8.67	-2.10	-9.52	-0.04	0.25	-8.67	-2.10	-9.52
9 Earnin items) Basic		-0.10	0.70	-24.05	-5.81	-26.42	-0.10	0.70	-24.05	-5.81	-26.42
Dilute	ed:	-0.04	0.25	-8.67	-2.10	-9.52	-0.04	0.25	-8.67	-2.10	-9.52

Note: The above is an extract of the detailed format of results for the Quarter/Year ended 31st March, 2021 filed with the Stock Exchange Place: Coimbatore under Regulation 33 of SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter/Year ended 31st March, 2021 are available on the Company website, www.veejaylakshmi.com and on the stock Date: 29.07.2021 exchange website, www.bseindia.com

For Veejay Lakshmi Engineering Works Limited (Sd/-) V.J.JAYARAMAN

New Delhi

Chairman

Adfactors 187

recalled and the said E-auction in respect of the aforesaid Land is hereby stands cancelled with immediate Date: 30-07-2021 Authorised Officer Bank of Baroda ACI INFOCOM LIMITED REGD OFF: 121, V MALL THAKUR COMPLEX, KANDIVALI EAST

Place: Kolkata

MUMBAI-400101 Email: Compliance@acirealty.co.in Website: www.acirealty.com NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of Company will be held on Thursday, 12th August 2021, inter alia to consider and approve the Unaudited Financial Results for the first quarter ended 30th June 2021 Further as per the "Code of Conduct" formed under the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015; the trading window will be closed from 1" July, 2021 till forty eight hours after the date of declaration of results for Directors, KMP Officers and Designated Employees, and

on Company's website at www.acirealty.com and also on Stock Exchanges Website at www.bseindia.com For ACI Infocom Limited

This information is also available

Kushal chand Jain Managing Director (DIN: 03545081

ए/डी के साथ पंजीकृत

धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

तालाब में डूबने से दो भाइयों की मौत

गरीबों को हवाई यात्रा

मुहैया कराने के लिए

प्रतिबद्ध : सिंधिया

विमानन

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को

लोकसभा में कहा कि प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी की सरकार में हवाई

यात्रा का लोकतंत्रीकरण हुआ है जो

पहले कभी नहीं हुआ था और यह

सरकार देश की गरीब जनता को

सुलभ हवाई यात्रा मुहैया कराने के

सिंधिया ने लोकसभा में

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक

विनियामक प्राधिकरण (संशोधन)

विधेयक, 2021' को चर्चा एवं

पारित करने के लिए रखते हुए यह

बात कही। उन्होंने कहा कि हमारा

प्रयास है कि प्रधानमंत्री मोदी के

नेतृत्व में आने वाले समय में भारत

उड्डयन के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व

करे। मंत्री के जवाब के बाद सदन

ने विभिन्न विषयों पर विपक्षी

सदस्यों के शोर-शराबे के बीच

विधेयक को ध्वनिमत से मंज्री दे

दी। इससे पहले सिंधिया ने कहा कि

यह सरकार भविष्य में देश की

शहरी आबादी के साथ ग्रामीण

जनता को भी सुलभ हवाई यात्रा

हवाई यात्रा का लोकतंत्रीकरण हआ

है तो वह नरेंद्र मोदी की सरकार में

ही हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत

का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार

के दरभंगा शहर में स्वतंत्रता के

समय हवाईपट्टी बनी थी जहां 1950

से 1962 तक एक निजी एयरलाइंस

उडानों का संचालन करती थी.

लेकिन उसके बाद दरभंगा शहर

देश के नागर विमानन क्षेत्र के नक्शे

से मिट गया। लेकिन इस योजना के

कारण नौ नवंबर, 2020 को दिल्ली

से दरभंगा पहली उड़ान पहुंची।

सिंधिया ने कहा कि ऐसे अनेक

छोटे शहर हैं जो हवाई मार्ग से बड़े

महाराष्ट्र : टैंकर से

गैस रिसाव के बाद

लोगों में दहशत

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में

मुंब्रा-पनवेल सड़क पर एक टैंकर से गैस रिसाव के कारण लोगों में दहशत फैल गई। इसके

बाद अधिकारियों को बृहस्पतिवार

को इस मार्ग पर कुछ घंटों तक

वाहनों की आवाजाही रोकनी

पडी। अग्निशमन विभाग के एक

कार्बनडाईऑक्साइड ले जा रहे

एक टैंकर से रिसाव की घटना

सामने आई। उन्होंने बताया कि

पूर्वाह्न 11 बजकर 45 मिनट पर

जानकारी मिलने के बाद

दमकल कर्मी घटनास्थल पर

पहुंचे और गैंस कंपनी के

कर्मचारी की मदद से रिसाव को

PUBLIC NOTICE

Registered Office at 83/86, GIDC Industria

Estate, Nadiad, Gujrat 387001 registered in the

Name of Shareholder/s: MANOJ KUMAF

PARNAMI, No. of Shares: 100, Folio no:

The Public are hereby cautioned against

purchasing or dealing in any way with the above

Any person who has any claim in respect of the

said share certificate/s should lodge such claim with the Company or its Registrar and Transfer

Agents Link Intime India Private Limited C-10 247 PARK, L.B.S. Marg, VIKHROLI (W) Mumbai

400083 within 15 days of publication of this notice

after which no claim will be entertained and the

Company shall proceed to issue Duplicate Share

पूर्वोत्तर रेलवे

ई-निविदा सुचना संख्याःEL-MWS-

GKP-2021-22-07

निम्नलिखित कार्य के लिए ई-निविदाएं भारत

के राष्ट्रपति की ओर से आमंन्त्रित की जाती

है। जो उप मुख्य विद्युत इंजीनियर, यांत्रिक

कारखाना, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर द्वारा

Name of Legal Claimant.

MANOJ KUMAR PARNAMI

referred share certificates.

Date: 30/7/2021

Place: New Delhi

M012581, Certificate No.: 46640, Distinctive

रोका।

सुबह में तलोजा के निकट

अधिकारी ने यह जानकारी दी।

किदविकपाडा गांव

टाणे, २९ जुलाई (भाषा)।

शहरों से जुड़ गए हैं।

उन्होंने केंद्र की 'उडान' योजना

की सोच से जुड़ा है।'

उन्होंने कहा, 'देश में यदि

प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है।

लिए प्रतिबद्ध है।

नई दिल्ली, 29 जुलाई (भाषा)।

तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में एक बृहस्पतिवार को निकाल लिया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों भाइयों की शिकायत की। पुलिस और निकाल लिया।

उनके माता-पिता को पता चला कि तालाब में डूबे दो भाइयों के शवों को वे तालाब में मछली पकड़ने के लिए गए हैं, तो उन्होंने पुलिस में इसकी

कोयंबटूर, 29 जुलाई (भाषा)। उम्र 13 और आठ वर्ष थी। जब अग्निशमन विभाग ने बालकों की तलाश करने के लिए बृहस्पतिवार सुबह एक तलाशी अभियान शुरू किया और तालाब से शवों को बाहर

नीलामी सह बिक्री हेतू सार्वजनिक सूचना (परिशिष्ट-IVA) (नियम 8(6)) कर्जदार/रों से बकाया राशि की वसुली हेतु वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनयम, 2002 के तहत आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पुर्व का इण्डिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आईआईएफएल एचएफएल) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा यहाँ नीचे उल्लिखित प्रतिभूत आस्ति का कब्जा लेने के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा, जो कब्जे के अधीन है, ''जहाँ है जैसे है'' ''जो है यही है'' तथा ''जो कछ भी है वहीं है'' आधार पर नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति के क्रय हेत महरबन्द लिफाफों में प्रस्ताव आमन्त्रित किये कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/ माँग सचना की तिथि । भौतिक कब्जे की तिथि ।

जमानती (यों) के नाम) श्री शंकेय शर्मा	तथा राशि 17 दिस. 2019	14 मार्च, 2020	फ्लैट नं. जी5-906, नौ वां तल, बिल्डिं सिटी इन्ट्रप्स्थ योजना गाजियाबाट उत्तर	ग नं. जी 5, माप 608.88 वर्ग फीट, भारत र प्रदेश–201010 का सभी भाग तथा हिस्सा
) श्रीमती उषा शर्मा) श्री गोपाल शर्मा	रु. 2209322/- (रु बाईस लाख नौ हजार तीन सौ	रु. 2576529/- (रु.		
प्रॉस्पेक्ट नं. 794618)	बाइस मात्र)	पच्चीस लाख छियत्तर हजार पाँच सौ उन्तीस मात्र)	रु. 1500000/- (रु. पन्द्रह लाख मात्र)	धराहर साश भुगतान (इएमडा) रु. 150,000/- (रु. एक लाख पचास हजार मात्र) नांस लि., कार्यालय नं1, प्रथम तल, महालक्ष्मी
16 अगस्त, 2021 18 अग. 2021 1100 बजे–1400 बजे के 5 बजे अप. तक		नीलामी की तिथि एवं समय 20 अग. 2021 1100 बजे-1300 बजे		ली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010 (प्राधिकृत
I. अचल सम्पत्ति के निरीक्षण की ति	थे 16 अग. 2021 को 1100 बजे -	1400 बजे तक है।		

2. ईएमडी सहित निर्धारित निविदा प्रपत्र में मुहरबन्द प्रस्ताव जमा करने की अन्तिम तिथि 18 अग. 2021 को 5 बजे अप. तक शाखा कार्यालय के पते पर है।

3. सम्पत्ति हेतु प्रस्ताव के खुलने की तिथि 20 अग. 2021 को उपर्युक्त शाखा कार्यालय पते पर 1100 बजे–1300 बजे तक है। निवदा अधिकृत प्राधिकारी की उपस्थिति में खोली जायेगी। 4. सुचना में बकाया राशि पर ऋण अनुबन्ध के अनुसार यथाप्रयोज्य भावी ब्याज प्रभारित किया जायेगा तथा आकरिमक व्यय, लागतें आदि किसी आकरिमक प्रभारों को छोड़कर इसकी वसली तक बकाया एवं देय हैं। 5. एतद्वारा कर्जदार तथा जमानती को सचना दी जाती है कि वे बिक्री के समय पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें और वे बिक्री के नियम एवं शर्तों के विवरणों के अनसार यहां ऊपर वर्णित अचल सम्पत्ति की खरीद हेत इच्छक क्रेता/क्रेताओं को ला सकते हैं।

6. कर्जदार(रों)/जमानती(यों) को सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम (1) के उपनियम 9 के तहत 15 दिवसीय बिक्री सूचना दी जाती है कि वे नीलामी तिथि से पूर्व उपर्युक्त राशि अदा कर दें जिसमें

7. ईएमडी गरुगाम में देय ''आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड'' के पक्ष में डीडी के माध्यम से देय होगा और इसे सम्बन्धित शाखा/कॉर्पोरेट कार्यालय में जमा करना होगा।

8. नीलामी बिक्री के विस्तत नियम एवं शर्ते निर्धारित निविदा प्रपत्र में संलग्न हैं। निविदा प्रपत्र उपर्युक्त शाखा कार्यालय पर उपलब्ध है अथवा आप https://www.iifl.com/home-loans/proper 9. अचल सम्पत्ति की बिक्री उच्चतम संविदाकार को की जायेगी। हालांकि अधोहस्ताक्षरी को यदि आवश्यक प्रतीत हो तो इंटर-से बोली की अनुमति देने का पूर्ण विवेकाधिकार है।

10. जो निविदाएँ पुर्ण रूप से नहीं भरी हैं अथवा अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होती हैं उन्हें अवैध निविदा माना जायेगा और तदनसार अस्वीकार कर दिया जायेगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा 11. कम्पनी सम्पत्ति पर किसी उस दायित्व हेतु उत्तरदायी नहीं है जो कम्पनी के संज्ञान में नहीं है।

अधिक विवरण के लिए सम्पर्क करें : श्री विजय कुमार, मोबाइल : 09811562664, ई-मेल : vijaykumar15@iifl.com, कॉर्पोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 98, फेज–IV, उद्योग विहार, गुरुग्राम,

तिथि : 30.07.2021, स्थान : गाजियाबाद

ह./- अधिकृत प्राधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

(₹ in lakh)

(₹ in lakh)



ICRA Limited

Corporate Identity Number (CIN): L74999DL1991PLC042749 Registered Office: B-710, Statesman House, 148, Barakhamba Road, New Delhi-110001 Telephone No.:+91-11-23357940-45; Website: www.icra.in; Email ID: investors@icraindia.com EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2021

S. No.	Particulars	Quarter ended June 30, 2021 (Unaudited)	Year ended March 31, 2021 (Audited)	Quarter ended June 30, 2020 (Unaudited)
1	Total income from operations	4,606.34	18,126.72	4,249.79
2	Net profit / (loss) for the period (before tax, exceptional and / or extraordinary items)	3,078.08	7,166.29	1,364.44
3	Net profit / (loss) for the period before tax (after exceptional and / or extraordinary items)	3,078.08	7,166.29	1,364.44
4	Net profit / (loss) for the period after tax (after exceptional and / or extraordinary items)	2,600.72	5,294.54	998.27
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit / (loss) for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax)]	2,633.51	5,320.00	1,041.37
6	Equity share capital	965.12	965.12	965.12
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		60,492.89	
8	Earnings per share (of ₹ 10/- each)			
	Basic :	27.04	55.04	10.38
	Diluted :	27.04	55.04	10.38

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2021

S. No.	Particulars	Quarter ended June 30, 2021 (Unaudited)	Year ended March 31, 2021 (Audited)	Quarter ended June 30, 2020 (Unaudited)
1	Total income from operations	7,986.58	30,106.08	6,961.89
2	Net profit / (loss) for the period (before tax, exceptional and / or extraordinary items)	3,314.27	11,200.51	2,329.36
3	Net profit / (loss) for the period before tax (after exceptional and / or extraordinary items)	3,314.27	11,200.51	2,329.36
4	Net profit / (loss) for the period after tax (after exceptional and / or extraordinary items)	2,433.75	8,268.34	1,704.89
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit / (loss) for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax)]	2,418.22	8,270.06	1,737.71
6	Equity share capital	965.12	965.12	965.12
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		74,807.59	
8	Earnings per share (of ₹ 10/- each)		327	
	Basic :	24.90	84.89	17.48
	Diluted :	24.90	84.89	17.48

 During the quarter ended June 30, 2021, the Company was dealing with following matters which arose in previous periods:

(a) The Securities and Exchange Board of India (SEBI) enhanced the penalty amount from ₹ 25 lakhs to ₹ 1 crore in respect of an adjudication proceeding initiated by it in relation to the credit ratings assigned to one of the Company's customer and the customer's subsidiaries. The Company deposited the enhanced penalty amount under protest and filed an appeal with the Securities Appellate Tribunal contesting the said order. The said appeal is under review. On this matter, the Company also co-operated with other government agencies in relation to queries

(b) The Board of Directors ("Board") had previously appointed external experts to examine and report on anonymous representations making certain allegations against two former officials which were forwarded to the Company by SEBI ("Representations"). The key findings arising from the said examination along with the remedial measures were submitted to SEBI in July 2020. The Company has implemented the remedial measures, including termination of services of aforesaid officials.

Basis the foregoing and the legal counsel opinion obtained, the Company does not foresee any significant adverse implications on the Company.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Statutory Auditors of the Company have carried out limited review of the Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter June 30, 2021. The full format of the Quarterly Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results and Limited Review Report thereon are available on the Stock Exchange websites of National Stock Exchange and BSE at www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively and under the Investors section on the Company's website www.icra.in. By Order of the Board of Directors N. Sivaraman

Place: Mumbai Managing Director & Group CEO (DIN: 00001747) Date : July 28, 2021

धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड ई-108-109, भूतल, लाजपत नगर पार्ट-I, नई दिल्ली-110024 क्षेत्रीय कार्यालय : नई दिल्ली

तिथि : 16.07.2021

साथ ही : मैसर्स ईमार एमजीएफ लिमिटेड, प्रथम तल,

2. श्रीमती गगन दीप कौर 1650/51, डीएलएफ, गादीपुर रोड, मेहरौली, नई दिल्ली-1650/51, डीएलएफ, गादीपुर रोड, मेहरौली, नई दिल्ली-110030 साथ ही : 8, वेस्टेंड, डीएलएफ छत्तरपुर साथ ही : 8, वेस्टेंड, डीएलएफ छत्तरपुर फार्म्स, मंडी रोड, नई दिल्ली-110030 फार्म्स, मंडी रोड, नई दिल्ली-110030 4. मैसर्स ईमार एमजीएफ लैण्ड लिमिटेड-बिल्डर (इसके मैसर्स मैक एक्सपोर्ट्स (इंडिया) (इसवे निदेशक द्वारा प्रतिनिधानित साझेदारों द्वारा प्रतिनिधानित) दुकान नं. 1, डीडीए शॉपिंग सेंटर, गीतांजिल. ईसीई हाउस 28, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-नर्ड दिल्ली-110017

साथ ही : मैसर्स ईमार एमजीएफ लिमिटेड, सेंट्रल प्लाजा, साथ ही : मैक एक्सपोर्ट, 143, उद्योग विहार, सेक्टर-105, एसएएस नगर. मोहाली-140306 पंजाब फेज-1, गुरुग्राम-122001, हरियाणा

एससीओ 120-122, सेक्टर 17-सी, चण्डीगढ-160017 वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की

1. हम धनलक्ष्मी बैंक लि., एक विधिवत पंजीकृत व्यावसायिक बैंक, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय थ्रिसुर, केरल राज्य में, अंचल कार्यालय, 2रा तल, नं. 10185 ए, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली 110005 मे है तथा अन्य स्थानों सहित एक शाखा कार्यालय भू तल, 5 एवं 6, अरुणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखम्बा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है (यहां के बाद ''बैंक'' के रूप मे वर्णित) वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम 2002 (यहां के बाद ''अधिनियम'' वर्णित) की धारा 13 (2) के अंतर्गत एतद्द्वारा आपके लिये यह सुचना जारी करता है।

हमारी लाजपत नगर शाखा ने आवश्यक ऋण दस्तावेजों को प्राप्त करने तथा प्रतिभूति अनुबंधों पर श्री सिवन्दर सिंह मनचन्दा (कर्जदार), श्रीमती गगनदीप कौर एवं मैसर्स मैक्स एक्सपोर्ट्स (इंडिया) (सह-कर्जदार) की खाता में आपको निम्न वित्तीय सहायता/ साख सुविधाएं जारी की थीः

क्र. सं.	साख सुविधा की प्रकृति	ऋण राशि⁄सीमा	दस्तावेज की तिथि	बकाया राशि (30/06/2021 तक)	ब्याज की दर
1.	वाणिज्यिक सम्पत्ति क्रय ऋण)	रु. 60.00 लाख (रुपये साठ लाख मात्र)	28.02.2011	14,38,641.46	14.75%

3. आप ने हमारी बैंक के पक्ष में निम्न परिसम्पत्तियों के संदर्भ में प्रतिभृति हित का निर्माण किया है: अचल सम्पत्ति/यों का बंधक यहां नीचे नीचे अधिक पूर्णतः वर्णित (यहाँ के पश्चात अनुसूची में वर्णित सम्पत्तियों को सामृहिक रूप से ''प्रतिभृत आस्तियाँ'' कहा जायेगा)

आप ने स्वीकृति की शर्तों, ऋण अनुबंधों तथा प्रतिभूति दस्तावेजों की शर्तों का उल्लंघन करते हुए उक्त प्रतिभूत वित्तीय सहायता के भुगतान की अनदेखी तथा उसमें चूक की है। तदनुसार 31.3.2021 से अधिनियम की धारा 2 (0) में परिभाषित रूप में आपकी उक्त खाता/ओं को बैंक ने गैर प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया है।

आप अन्य लागत एवं खर्चे के साथ 01.07.2021 से सम्पूर्ण भुगतान की तिथि तक 14.75% प्रति वर्ष की दर से आगे के ब्याज के साथ रु. 14,38,641.46 (रुपये चौदह लाख अड़तीस हजार छः सौ इकतालीस एवं छियालीस पैसे मात्र) का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी हैं। बार-बार मांग किये जाने के बावजूद आप ने ऋण/वित्तीय सहायता का पुनर्भुगतान नहीं किया है। अधिनियम की धारा 2 (जेडडी) के अंतर्गत परिभाषित रूप में बैंक ''प्रतिभूत क्रेडीटर'' है तथा

आपको यह सुचना जारी करने के लिये अधिकृत है। 7. अतएव हम आपसे मांग करते हैं कि इस सुचना की तिथि से 60 (साठ) दिनों के भीतर 01.07.2021

से 14.75% प्रति वर्ष की दर से आगे के ब्याज तथा दंड ब्याज, अन्य चार्जेज, लागत तथा खर्चे के साथ रु. 14,38,641.46 (रुपये चौदह लाख अड़तीस हजार छः सौ इकतालीस एवं छियालीस पैसे मात्र) की राशि का भुगतान करें अन्यथा प्रतिभृत क्रेडीटर के रूप में बैंक अपने अधिकारों तथा उपचारों के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट विभिन्न उपायों का अवलम्बन करेगा।

8. एतदद्वारा आपको सुचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार बैंक की लिखित पूर्व सहमित प्राप्त किये बिना बैंक के हित के विरुद्ध किसी भी रूप में प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का व्यवसाय इस सुचना की प्राप्ति के बाद नहीं करेंगे। अधिनियम की धारा 29 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के प्रावधानों की अवज्ञा अथवा उल्लंघन करता है तो वह एक वर्ष तक की कैद अथवा दंड अथवा दोनों का भागी होगा।

9. पुनः कुपया ध्यान रहे कि इस सुचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण देयताओं का भुगतान नहीं करने तथा अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत बैंक द्वारा कोई कार्रवाई शरू करने की स्थिति में आप इस सिलसिले में बैंक द्वारा वहन की गई सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे का बैंक को भगतान करने के लिये उत्तरदायी होंगे। यदि प्रतिभृत परिसम्पत्ति की बिक्री राशि से बैंक की सम्पूर्ण बकाया देयता पुरी नहीं होती है तो बैंक आपकी चल तथा अचल दोनों परिसम्पत्तियों से व्यक्तिगत, संयुक्त तथा पथक रूप से शेष बकाये की वसली की कार्रवाई करेगा।

10. अधिनियम की धारा 13(8) में निर्दिष्ट रूप में बिक्री/नीलामी सूचना प्रकाशन की तिथि से पूर्व किसी भी समय बैंक द्वारा वहन की गई सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के साथ, सम्पूर्ण बकाये का भुगतान कर आप प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित कर सकते हैं। यह सुचना कानून के किसी अन्य प्रावधानों के अंतर्गत वह जो भी उपयक्त तथा आवश्यक समझे ऐसी कार्रवाई अथवा काननी कार्यवाही शुरू करने की बैंक के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह रहित है।

अनुसूची अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र.स.	विवरण
1.	यूनिट नं. 46, दूसरी मंजिल (सीपीएम 46-A6-F0246), माप 1542 वर्ग फीट, सेंट्र प्लॉजा परियोजना, ईमार एमजीएफ एसएएस नगर, सेक्टर-105, मोहाली हिल्स, मोहाल पंजाब-160055.
	-C

यूनिट नं. ४६, तीसरी मंजिल (सीपीएम ४६-А६-F0346), माप 1444 वर्ग फीट, सेंट्रल प्लॉजा परियोजना, ईमार एमजीएफ एसएएस नगर, सेक्टर-105, मोहाली हिल्स, मोहाली,

सीमाएँ : उत्तर : पार्किंग, पश्चिम : खुला क्षेत्र, दक्षिण : सड़क, पूर्व : मेन डोर स्थान : नई दिल्ली अधिकत प्राधिकारी तिथि : 16/07/2021 धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड

OSBI

नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, स्टेट बैंक ग्लोबल आईटी सेंटर, मेन बिल्डिंग, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई - 400614

शुद्धिपत्र-2 भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं, कार्यालयों और डेटा सेन्टरों के लिए कनेक्टिविटी की अधिप्राप्ति हेत् कृपया आरएफपी क. SBI/GITC/NW&C/21-22/773 दिनांकित 23.06.2021 को देखें. शुद्धिपत्र-2 दिनांकित 29.07.2021 को बैंक की वेबसाइट https://www.sbi.co.in या https://bank.sbi पर प्रोक्योरमेंट न्यूज़ के अंतर्गत या ई–प्रोक्योरमेंट एजेन्सी पोर्टल <u>https://etender.sbi/SBI/</u> पर देखा जा सकता है. स्थान: नवी मुंबई हस्ताक्षर/- उप महाप्रबंधक

(नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट) दिनांक: 30/07/2021

<u>नाएडा टाल ब्रिज कपना लामटड</u> CIN: L45101DL1996PLC315772

पंजी. कार्यालयः टोल प्लाजा, मयूर विहार लिंक रोड, नई दिल्ली-110091 टेली.: 0120-2516447/95, ईमेल : ntbcl@ntbcl.com, वेबसाईट: www.ntbcl.com

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के अंतर्गत शेयरधारकों के लिये सूचना जहाँ अन्तरिम 2013-14 के लिये लाभांश दावा-रहित है. के शेयरधारकों के लिये दावा-रिहत लाभांश/शेयरों का आईईपीएफ फंड/आईईपीएफ सस्पेंश खाता में अंतरण अभिलेखों से यह सुचना मिली है कि कुछ शेयरधारकों ने वर्ष 2013–14 के लिये अपने अंतरिग लाभांश एन्कैश नहीं किये हैं तथा वह लगातार सात वर्षों से दावा–रहित है। ऐसे शेयरधारकों वे विवरण कम्पनी की वेबसाईटः www.ntbcl.com पर प्रदर्शित की गई है।

विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अन्तरण और प्रतिदाय) नियमावली 2016 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) के प्रावधानों वे अनुपालन में सुचित किया जाता है कि ऐसे सभी इक्विटी शेयरों को कम्पनी द्वारा केन्द्र सरका द्वारा स्थापित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफ) अथव आईईपीएफ सस्पेंश खाता में अंतरित किया जायेगा जिसके लिये लगातार सात वर्षों से लाभांश का दावा अथवा शेयरधारकों द्वारा उसे एन्कैश नहीं किया गया है। तदनुसार, ऐसे शेयरों जह लाभांश लगातार सात वर्षों से दावा-रहित रहा है, को यदि 3 नवम्बर, 2021 को या उससे पूर उसका दावा नहीं किया जाता है तो उसे आईईपीएफ अथवा आईईपीएफ सस्पेंश खाता में अंतरि कर दिया जायेगा।

कम्पनी ने त्वरित रूप से अपने लाभांश का दावा करने की सलाह देते हुए ऐसे सभी शेयरधारकं के नवीनतम उपलब्ध पते पर वैयक्तिक सूचना भेज दी है जिनके लाभांश वित्त वर्ष 2013-14 रं लगातार सात वर्षों से दावा-रहित पड़े रहे हैं।

आईईपीएफ अथवा आईईपीएफ की सस्पेंश खाता में उसे क्रेडिट किये जाने से पूर्व शेयरों तथ दावा-रहित लाभांश राशि का दावा करने के लिये शेयरधारक वर्ष 2013-14 के लिये अंतिग लाभांश के लिये 4 अप्रैल, 2021 को या उससे पूर्व अधोलिखित दस्तावेजों के साथ एक लिखिल अंडरटैंकिग आरटीए के पास अग्रसारित करें: शेयरों का दावा करने के लिये अंडरटैकिंग का विधिवत हस्ताक्षरित पत्र (फोलियों नं./डीर्प

आईडी क्लाइन्ट आईडी का उल्लेख करना सुनिश्चित करें।)

1. बैंक मैंडेट फार्म;

2. पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित प्रति

3. आवास के प्रमाण (जैसे वोटर आईडी/आधार कार्ड/पास्पोर्ट/ड्राइविंग लाइसैन्स) की स्वत सत्यापित प्रति

4. अपनी बैंक खाता का निरस्त बैंक चेक

5. बैंक की मृहर तथा सत्यापनकर्ता प्राधिकारी के कर्मचारी आईडी के साथ बैंक के प्रबंधक से हस्ताक्षर का सत्यापन पत्र।

दावा-रहित लाभांश, पते के परिवर्तन तथा डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने तथा सम्प्रेषण मामलों के संदर्भ में आगे जानकारी/स्पष्टीकरणों के लिये कृपया अधोहस्ताक्षरी अथवा आरटीए रं

टिप्पणीः 1) यदि 3 नवम्बर, 2021 को या पूर्व हमें दावे के लिये दस्तावेज प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे शेयरों को आईईपीएफ फंड/आईईपीएफ सस्पेंश खाता में अंतरित कर दिया जायेगा जिसके लिये

लाभांश अप्रदत्त/दावा-रहित रहा है तथा आईईपीएफ प्राधिकरण की खाता में क्रेडिट की गई शेयरों तथा लाभांश के संदर्भ में कम्पनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं को जा सकता है। शयरधारका र शेयरों का दावा करने के लिये आईईपीएफ नियमावली में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करन 2) यदि 3 नवम्बर, 2021 को या पूर्व वर्ष 2013-14 के लिये हमें अंतिम लाभांश के लिये आपका दावा प्राप्त नहीं होता है तो उसे आईईपीएफ फंड में अंतरित कर दिया जायेगा।

3) पुनः यह भी ध्यान रहे कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी ने अंतिम लाभांश खाता 2013-14 के लिये ऐसे शेयरों को आईईपीएफ सस्पेंश खाता र अंतरित कर दिया है जिनके लिये लगातार सात वर्षों से लाभांश दावा-रहित रहा है। 4) वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसार 1 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों के हाथों में लाभांश आग

कर-योग्य होगी तथा कम्पनी को निर्धारित दरों पर शेयरधारकों को प्रदत्त लाभांश से स्रोत पर क की कटौती करना होगा। विभिन्न श्रेणियों के लिये निर्धारित दरों के लिये शेयरधारकों से अनुरोध है कि वित्त अधिनियम, 2020 तथा उसके संशोधनों को देखें। शेयरधारकों से आग्रह है वि कम्पनी/आरटीए के पास (भौतिक पद्धत्ति में धारित शेयरों के मामले में) तथा डिपॉजिटरी के पास (डीमैट पद्धत्ति में धारित शेयरों के मामले में) अपना पैन अद्यतन करा लें। 5) शेयरधारकों से अनुरोध है कि आरटीए के पास (भौतिक धारिता के लिये) तथा डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट के पास (डीमैट धारिता के लिये) अपने ईमेल आईडी अद्यतन करा लें ताकि वे सर्भ सचनाएं कम्पनी से इलेक्टॉनिक रूप में प्राप्त कर सकें।

नोएडा टोल ब्रिज कम्पनी लिमिटेड केफिन टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड सेलेनियम टावर-बी', प्लॉट नं. 31 एवं 32, गाछीबाउली, फाइनांसियल डिस्ट्रिक्ट,

नोएडा टोल ब्रिज कम्पनी लिमिटेड टोल प्लाजा. डीएनडी फ्लाईवे, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, नोएडा-201301 (उ.प्र.) हैदराबाद-500032, तेलंगना फोन : +9140 6716 2222, 3321 1000

नोएडा टोल ब्रिज कम्पनी लिमिटेड के लिए कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

BOI AXA Mutual Fund

(Investment Manager: BOI AXA Investment Managers Private Limited)

Registered Office: B/204, Tower 1, Peninsula Corporate Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai 400013 CIN: U65900MH2007FTC173079



Mutual Fund

NOTICE DISCLOSURE OF ANNUAL REPORT AND ABRIDGED ANNUAL REPORT OF THE SCHEMES OF BOI AXA MUTUAL FUND

NOTICE is hereby given to all investor(s)/Unit holder(s) of BOI AXA Mutual Fund ('the Fund') that in accordance with Regulation 56 of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 and SEBI circulars issued in this regards from time to time, the Annual Report and Abridged Annual Report of the schemes of the Fund for the year ended March 31, 2021 have been hosted on the website of the Fund viz. www.boiaxamf.in and on the website of Association of Mutual Funds in India ('AMFI') viz. www.amfiindia.com

स्थानः नोएडा

तिथि: 30.07.2021

Investors can submit a request for physical or electronic copy of Abridged Annual Report through following modes: By giving a call to our Service Centre at 1800-266-2676/1800-103-2263; or

प्राधिकृत अधिकारीः

बैंक ऑफ इंडिया

Sending an email to <u>service@boiaxamf.in</u>; or

 By sending SMS to 92100 12222 from investor's registered mobile number. SMS format "ASTMTP<Space>Folio no." for physical copy and "ASTMTE<Space>Folio no." for soft copy; or

 By writing a letter to Head - Customer Services, BOI AXA Investment Managers Private Limited, B/204, Tower 1, Peninsula Corporate Park. Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai 400013.

> For BOI AXA Investment Managers Private Limited (Investment Manager for BOI AXA Mutual Fund)

Authorised Signatory

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

पंजाब नैश्ननल बैंक 🔘 punjab national bank बैंक ऑफ़ इंडिया **B**(Bank of India सामान्य सेवाएं प्रशासन प्रभाग प्र. का. : प्लॉट सं. - 4, सेक्टर - 10, द्वारका, नई दिल्ली - 110075

0

ई-निविदा सूचना

पंजाब नैशनल बैंक प्रधान कार्यालय भवन, प्लॉट सं.-4, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 के अग्रभाग (facade) की साफ़-सफाई हेतु वार्षिक अनुरक्षण संविदा के लिए ई-निविदा आमंत्रित करता है। कार्य की अनुमानित लागत र 18.68 लाख + जीएसटी प्रति वर्ष है। निविदा की लागत

₹ 2,950/- (रुपये दो हजार नौ सो पचास मात्र) है। री-एन्क्रिप्शन करने की अंतिम तिथि ₹ 13.08.2021 को 1500 बजे तक है। अधिक जानकारी के लिए, हमारी वेबसाइट https://www.pnbindia.in और https://etender.pnbnet.in देखें । उपर्युक्त कार्य के संबंध में कोई भी शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण केवल हमारी वेबसाइट https://www.pnbindia.in और https://etender.pnbnet.in पर जारी किया जाएगा, जिसे नियमित रूप से देखा मुख्य प्रबंधक (सिविल)

सिरका पैन्ट्स इंडिया लिमिटेड CIN:L24219DL2006PLC145092 पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 50, फेज-2, बादली औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-110042, दुरभाष : +91-11-42083083

वेबसाइट : https://sircapaints.com. ई-मेल : info@sircapaints.com डेविएशन अथवा बदलाव(वों) का स्पष्टीकरण सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के

साथ पठित विनियमन 32 के अनुपालन में एतद्द्वारा हम स्पष्ट करते हैं कि निगर्म राशि के उपयोग में 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के लिये कोई डेविएशन/बदलाव नहीं हुआ है तथा आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) से उगाही की गई सम्पूर्ण निधि प्रॉस्पेक्टस तिथि 23 मई, 2018 में वर्णित प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त की गई है। अधिक विवरणों के लिये कृपया कम्पनी की वेबसाइट (www.sircapaints.com)

तथा नेशनल स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लि. (www.nseindia.com) देखें। सिरका पेंटस इंडिया लिमिटेड के लिए

संजय अगरवाल तिथि : 29.07.2021 (DIN: 01302479) स्थान : दिल्ली अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, नई दिल्ली जोन, ''स्टार हाउस'', एच –2, कनॉट सर्कस, मध्य/

Place: Mumbai

Date : July 29, 2021

शुद्धिपत्र यह शुद्धिपत्र बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली ओवरसीज शाखा के खाते मैसर्स रामरती जगदीश प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स कंचन इंटरनेशनल के लिए दिनांक 23.07.2021 को फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी) और जनसत्ता (हिंदी) में

प्रकाशित दिनांक 07.09.2021 को होने वाली ई-नीलामी के लिए है। यह शुद्धिपत्र ई-नीलामी में सूचीबद्ध मैसर्स रामरती जगदीश प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स कंचन इंटरनेशनल के ऋणी(ओं) / गारंटर(ओं) / बंधक(ओं) के नाम और संपत्ति के विवरण के गलत प्रिंट से प्रभावित होने वाले सभी संबंधितों को दिया जा रहा है।

इसे निम्नानुसार संशोधित किया जा रहा है: क्र. ऋणी(ओं) / गारंटर(ओं) / बंधक(ओं) नाम

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 30.07.2021

क्र. स.	ऋणी(ओं) / गारंटर(ओं) / बंधक(ओं) नाम	संपत्ति का विवरण		
1.	 मैसर्स रामरती जगदीश प्राइवेट लिमिटेड निदेशक / गारंटरः श्री सुरेश चंद सिंघल निदेशक / गारंटरः श्री अजय सिंघल गारंटरः सुश्री लीना सिंघल गारंटरः श्रीमती सावित्री सिंघल 	(वाणिज्यिक संपत्ति) एक्स—457, मोहल्ला राम नगर, गांधी नगर गांव, सीलमपुर इलाका शाहदरा, नई दिल्ली, श्री सुरेश चंद सिंघल के नाम पर है। प्लॉट क्षेत्रः 72 वर्ग गज, आच्छादित क्षेत्रः 2332.80 वर्ग फुट। (यह संपत्ति बैंक के प्रतीकात्मक कब्जे में है)।		
2.	 मैसर्स रामरती जगदीश प्राइवेट लिमिटेड निदेशक / गारंटरः श्री सुरेश चंद सिंघल निदेशक / गारंटरः श्री अजय सिंघल गारंटरः सुश्री लीना सिंघल गारंटरः श्रीमती सावित्री सिंघल 	(मिश्रित उपयोग हेतु क्षेत्र) एक्स-841, प्लाट नंबर 16 और 17, खसरा नंबर 85, आबादी चांद मोहल्ला, रघुबरपुरा, नंबर 1 गाँधी नगर ग्राम, इलाका सीलमपुर, शाहदरा, नई दिल्ली, जो कि श्री सुरेश चंद सिंघल और श्रीमती सावित्री सिंघल के नाम पर है। प्लॉट क्षेत्रः 60 वर्ग गज, आच्छादित क्षेत्रः 1890 वर्ग फुट। (यह संपत्ति बैंक के प्रतीकात्मक कब्जे में है)।		
_	, , , ,			

(मिश्रित उपयोग हेत क्षेत्र) खसरा नंबर 119 से 121 में **3.** | 1. मैसर्स कंचन इंटरनेशनल रिथत एक्स / 926, अहाता नंबर 41 और 42, आबादी गणेश 2. प्रोपराईटरः श्री सुरेश चंद सिंघल 3. गारंटरः श्रीमती सावित्री सिंघल पार्क, चांद मोहल्ला, गांव घोंडली, इलाका शाहदरा, दिल्ली –110031, जो कि श्रीमती सावित्री सिंघल और श्री सुरेश चंद सिंघल के नाम पर है। प्लॉट क्षेत्रः 181.90 वर्ग मीटर, निर्मित क्षेत्रः 545.70 वर्ग मीटर। (यह संपत्ति बैंक के प्रतीकात्मक कब्जे में है)।

(श) GCODLUCK गुडलक इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 509, अरुणाचल बिल्डिंग, बाराखम्भा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 वेबसाईटः www.goodluckindia.com, ईमेल : goodluck@goodluckindia.com CIN : L74899DL1986PLC050910

30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के एकल व समेकित अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार समेकित

	0	५५७०।		समाकत			
क्र .		समाप्त तिमाही	र्माप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही		
सं.	144301	30/06/2021	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2020		
۲۱.	SECTION DESCRIPTION OF THE SECTION O	(अनंकेक्षित)		(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)		
1	परिचालनों से कुल आय	57,124.10	25,184.76	57,124.10	25,184.76		
2	शुद्ध लाभ / हानि अवधि हेतु (कर पूर्व, अपवाद स्वरूप तथा / अथवा असाधारण सामग्री से पूर्व)	1,864.23	168.85	1,864.12	168.79		
3	शुद्ध लाभ/(हानि) अवधि हेतु कर के पूर्व (अपवाद स्वरूप अथवा असाधारण सामग्री के पश्चात्)	1,864.23	168.85	1,864.12	168.79		
4	शुद्ध लाभ / (हानि) अवधि हेतु तथा कर पश्चात् (अपवाद स्वरुप तथा / अथवा असाधारण सामग्री से पश्चात्)	1,353.82	126.23	1,353.71	126.17		
5	अवधि हेतु कुल योग गहन आय (अवधि हेतु लाग/ हानि शामिल करकें तथा/अथवा असाधारण सामग्री पश्चात्) तथा अन्य गहन तथा पूर्ण आय (कर पश्चात्)	1,353.82	126.23	1,353.71	126.17		
6	इक्विटी शेयर पूंजी(अंकित मुल्य रु.2/- प्रत्येक)		460.13	490.13	460.13		
7	संचय (गत वर्ष की बैलेंस शीट में दिखाए गए अनुसार पुनर्मूल्यांकन संचय को छोड़कर)	. NA	NA	NA	NA		
8	प्रति अंश आय (रु. 2/- प्रत्येक) (लगातार, सतत तथा रियायती संचालन हेतु)						
	मूलभूतः	5.52	0.55	5.52	0.55		
	देवः ै	5.52	0.55	5.52	0.55		
नोटः							
া. उपर्युक्त वित्तीय परिणाम लेखा परिक्षा समिति द्वारा समीक्षा उपरान्त निदेशक मंडल 29 जुलाई, 2021 को हुई बैठक में							
3. 1							

अनुमोदित कर दिए गए हैं। 2. पिछली अवधि के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो. फिर से वर्गीकत / पनर्गठित किए गए हैं।

. सांविधिक लेखा परीक्षक ने कंपनी के परिणाम की सीमित समीक्षा की है।

। उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं), विनियमावली, 2015 (''सूचीकरण विनियमन'') व विनियम 33 के तहत बीएँसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॅक एक्सचेन्ज में प्रस्तुत किए गए समाप्त तिमाही के विस्तृत (स्टैंडअलोन और समेकित) अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश है। समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों का संपूण प्रारूप स्टॉक एक्सचेन्जेज की वेबसाइट www.nseindia.com, www.bseindia.com और कम्पनी की वेबसाइट www.goodluckindia.comपर भी उपलब्ध है।

कत ग्डलक इंडिया लिमिटेड स्थानः गाजियाबाद तिथिः 29 जुलाई, 2021 DIN: 0029243

www.readwhere.com

आमंत्रित की जाती है। निविदा संख्या:EL-MWS-GKP- 2021-22-07, कार्य का विवरणः हायरिंग आफ वन नं0 500 के0वी०१० साइलेन्ट डी0जी0 सेट फार 12 मन्धरा इन मैकेनिकल वर्कशाप गोरखपुर, अनुमानित लागतः र 10,70,534.61, बयाने की राशिः ₹ 0.00, ई-निविदा फार्म का मूल्यः ₹ 0.00, कार्य पूर्ण करने की समय/अवधि स्वीकृत पत्र जारी होने के तिथि से: 12 माह। नोटः • आन लाइन ई-निविदा जमा करने की तिथि 20.08.2021, समय 11.00 बजे तक। • पूर्ण विवरण एवं निविदा की प्रस्तुति करने के लिए

भारतीय रेल के वेबसाइट www.ireps. gov.in पर देखें। • यदि निविदा सूचना मे हिन्दी एवं अंग्रेजी में अन्तर होता हैं तो निविदा सुचना में अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा। उप मुख्य विद्युत इंजीनियर (कार. मुजाधि/विद्युत-27 गोरखपुर

यात्री सुविधा सम्बन्धित शिकायत हेतु मोबाहल ने. 09794845955 पर SMS करें। ट्रेनों में उवलनशील पदार्थ लेकर यात्रा न करें

बाहरी सर्कल, पीवीआर प्लाजा हॉल, नई दिल्ली के समीप - 110001, फोन नंबर 011-28844099